

चंदन की खुशबू में...



फटे हाथ-पैरों की खास क्रीम

वामा™
क्रीम

वामा क्रीम के उपयोग

- **फटी एड़ियाँ**— अक्सर देखा गया है कि सीमेंट के फर्श पर चलने, खेतों में काम करने, कंसट्रक्शन का काम करने या पैरों की साफ-सफाई न रख पाने की स्थिति में एड़ियाँ फट जाती हैं। **वामा क्रीम** कोकम के घी एवं सिंदूर युक्त है। ये दोनों तत्व एड़ियों की त्वचा को नुकसान होने से बचाते हैं और एड़ियाँ साफ रखने में मदद करते हैं। अतः एड़ियाँ फटने पर उन्हें पानी से धोकर साफ करें एवं **वामा क्रीम** लगायें। **दिन में 3-4 बार वामा क्रीम लगाने से फटी एड़ियों में राहत मिलती है। स्वस्थ एड़ियों को भी वामा क्रीम फटने से बचाती है।**
- **फटे हाथ पैर**— सर्दियों में या धूल-मिट्टी, सीमेंट आदि वाले वातावरण में हाथ-पैर की त्वचा पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में हमें त्वचा को वातावरण के स्पर्श से बचाना चाहिये। **वामा क्रीम** में मौजूद खास पेट्रोलियम जैली और कोकम के घी का फार्मूला त्वचा पर एक सुरक्षा की परत बना देता है और सर्दी एवं वातावरण के दुष्प्रभाव से उसे बचाता है। अतः **त्वचा की रक्षा के लिये दिन में 2-3 बार वामा क्रीम लगायें।**
- **खारवें**— ज़्यादा देर तक पानी का काम करने से हाथ-पैर दोनों की अंगुलियों के जोड़ व अंगुलियों के बीच में कई लोगों को खारवों की शिकायत रहती है। हाथ-पैर के इन इलाकों की सफाई भी नियमित रूप से नहीं हो पाती। इससे त्वचा गल जाती है, दर्द होता है एवं सुन्दरता प्रभावित होती है। अतः **हाथों और पैरों को सुन्दर बनाने हेतु वामा क्रीम का रोज़ इस्तेमाल करें।**
- **रुखी त्वचा**— अत्यधिक सर्दी हो या गर्मी, दोनों ही मौसम त्वचा से उसकी नमी चुरा लेते हैं। **वामा क्रीम** एक ऐसी क्रीम है जो दोनों ही मौसम में त्वचा की नमी बरकरार रखने में कारगर है। चंदन से युक्त इस आयुर्वेदिक **वामा क्रीम** को होठों और चेहरे के अन्य भागों पर भी लगाया जा सकता है। अतः **''फूलों सी कोमल त्वचा हेतु'' इसे रोज़ लगायें।**
- **आफ्टर शेव**— शेविंग के बाद थोड़ी सी **वामा क्रीम** लेकर गालों पर लगायें। इससे शेविंग के बाद होने वाली जलन कम होती है। शेविंग के दौरान अगर ब्लेड से कटा हो तो उसमें भी **वामा क्रीम** से आराम मिलता है।



फटे हाथ-पैरों की खास क्रीम

वामा™
क्रीम

- **फोड़े-फुंसी**— **वामा क्रीम** नियमित रूप से लगाने से फोड़े-फुंसी कम होते हैं और उनसे होने वाले दर्द, जलन एवं खुजली से राहत मिलती है। **वामा क्रीम लगाने से मुँहासों (पिंपल्स) में भी कमी आती है।**
- **त्वचा का कटना**— शरीर पर कहीं भी अगर मामूली कट लग जाए तो तुरंत उस स्थान पर **वामा क्रीम** का लेप लगाना चाहिये। दिन में 4-5 बार इसी तरह **वामा क्रीम** लगायें। **इससे कटने वाले स्थान पर निश्चित ही आराम मिलेगा।**
- **मामूली घाव**— घाव पर भी **वामा क्रीम** गहरा असर करती है। ध्यान इस बात का रखें की घाव पर **वामा क्रीम** लगाने से पूर्व घाव को एक बार स्वच्छ पानी से अवश्य साफ कर लें। इससे **वामा क्रीम** का असर दुगुनी तेज़ी से होगा और घाव जल्दी भरेगा।
- **मामूली जलना**— भाप, आग या किसी अन्य गर्म चीज़ के छू जाने पर त्वचा में जलन होने लगती है जो लम्बे समय तक तकलीफ देती है। इसलिये त्वचा के किसी भी स्थान पर जलने की स्थिति में तुरंत **वामा क्रीम** लगायें। इससे जलन में राहत मिलेगी। ऐसा 4-5 बार दोहराने से जलन जाती रहेगी।

फटी एड़ियाँ • फटे हाथ-पैर • बिवाईयाँ • खारवे • केन्दवा
मामूली जलना • रुखी त्वचा • आफ्टर शेव • फोड़े-फुंसी
त्वचा का कटना • मामूली घाव आदि के लिये अचूक क्रीम

अंजू फार्मा— के अन्य उत्पाद

- मेकाडो पेन बाम ■ अंजू ब्राम ■ अंजू कफ सायरप
- पेन ऑफ ऑईल ■ पेन क्योर आइंटमेंट
- जालिम-एक्स लोशन ■ जालिम-एक्स रूज़ ■ जालिम-एक्स मलम

Anju Mfd. By:

ANJU PHARMACEUTICALS

111-112, Alankar Chambers, Ratlam Kothi,
A.B. Road, Indore 452 001 (M.P.)

www.anjupharma.com Customer Care No. 098935 62415